

# 15 फरवरी से RMC आयोजित करेगा स्ट्रीट फूड फेस्टिवल

Feb 12, 2019



**Ranchi :** रांची नगर निगम 15 से 17 फरवरी तक मोरहाबादी मैदान में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन करेगा. इस फेस्टिवल में महिला स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, कलाकारों के बीच सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम विशेष तौर किया जायेगा. मेयर आशा लकड़ा ने मंगलवार को बताया कि सरकार के आदेशानुसार 20 जनवरी को हरमू मैदान में निगम ने शहरी समृद्ध योजना की शुरुआत की थी. योजना की अगली कड़ी में उक्त फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है. इस तीन दिवसीय मेले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ऋण वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पानेवाले लाभुकों के बीच पत्रक वितरण, प्रतियोगिता कार्यक्रम कर लाभ लेनेवाले को प्रमाणपत्र वितरित किया जायेगा.

## **100 स्टॉलों से होगा वितरण**

अपने कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में मेयर ने कहा कि Day-Nulm एवं FSSAI के संयुक्त तत्वावधान में इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन का उद्घाटन नगर विकास मंत्री सीपी सिंह करेंगे. योजना में विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची सांसद रामटहल चौधरी, कांग्रेस विधायक जीतूचरण राम, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, खिजरी विधायक रामकुमार पाहन, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय सहित सभी पार्षद एवं TVC के सदस्य उपस्थित रहेंगे. उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल में निगम आयोजन स्थल पर करीब 100 स्टॉल लगायेगा. स्टॉल में कौशल विकास, एनयूएलएम का लाभ लेनेवाले लाभुकों को सहभागिता प्रदान करने के साथ योजनाओं की जानकारी दी जायेगी.